



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 28—फरवरी 3, 2006 (माघ 8, 1927)  
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28—FEBRUARY 3, 2006 (MAGHA 8, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	9	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	73	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	109	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	291
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	39
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	63
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	45
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*

\*आंकड़े प्रकाश नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	9	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	73	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	109	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	291
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	39
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	63
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	45
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2006

सं. 8-217/2004-पी.पी.1(भाग)--भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के दिनांक 26.11.1993 के अधिसूचना सं. 8-97/91-पी.पी.1 तथा दिनांक 20.7.2004 और 8.12.2005 के फा. सं. 8-217/2004-पी.पी.1(भाग) का आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की निम्नलिखित संस्थाएं तथा अधिकारी निरीक्षण, धूमन अथवा विसंक्रमण करने तथा अन्य उन देशों को निर्यात के लिए अभ्यष्ट ऐसे पौधों और पौध सामग्रियों जिन्हें ऐसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, के संबंध में पादपस्वच्छता प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत हैं। तदनुसार उक्त अधिसूचना में संगत शीर्षों के अधीन निम्नलिखित को जोड़ा जाए :--

2. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

कर्नाटक

(iv) उप निदेशक बागवानी (जिला पंचायत),  
बीजापुर,  
बागवानी विभाग,  
कर्नाटक सरकार,  
[कोड सं. 'एस' (के ए आर 4)]

(v) उप निदेशक बागवानी (जिला पंचायत),  
बेलगाम,  
बागवानी विभाग,  
कर्नाटक सरकार,  
[कोड सं. 'एस' (के ए आर 5)]

(vi) उप निदेशक बागवानी (जिला पंचायत),  
कोप्पल,  
बागवानी विभाग,  
कर्नाटक सरकार,  
[कोड सं. 'एस' (के ए आर 6)]

(vii) उप निदेशक बागवानी (जिला पंचायत),  
हवेरी,  
बागवानी विभाग,

कर्नाटक सरकार,  
[कोड सं. 'एस' (के ए आर 7)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)  
अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

संकल्प

विषय : --अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय मॉनीटरी समिति का गठन।

सं. एफ. 9-7/2002-एम.सी.(भा.)--इस मंत्रालय के दिनांक 7 अगस्त, 2004 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने श्री आर. चैनराज जैन के स्थान पर सुश्री सन्ना हबीब को मनोनीत करने और श्री के. के. अबू बाकर तथा बेगम रेहाना उद्रे को अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मॉनीटरी समिति के सदस्य के रूप में समाविष्ट करने का निर्णय लिया है। अब से इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी :--

- |  |            |
|--|------------|
| (i) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री   | -- अध्यक्ष |
| (ii) राज्य शिक्षा मंत्री, भारत सरकार   | -- सदस्य   |
| (iii) शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ  | -- सदस्य   |
| (iv) शिक्षा मंत्री, केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम  | -- सदस्य   |
| (v) शिक्षा मंत्री, असम सरकार, गुवाहाटी   | -- सदस्य   |
| (vi) शिक्षा मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर   | -- सदस्य   |
| (vii) श्री इकबाल अहमद सरडगी,<br>संसद सदस्य (लोक सभा)<br>98, साउथ एवेन्यू,<br>नई दिल्ली-110001                        | -- सदस्य   |
| (viii) श्री सरताज सिंह छतवाल,<br>संसद सदस्य (लोक सभा) बी-601,<br>एम. एस. फ्लैट्स,<br>बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली | -- सदस्य   |

(ix) श्री एस. एस. अहलूवालिया, संसद सदस्य (राज्य सभा), 10, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001	-- सदस्य	"अमीर महल", चेन्नई-600014
(x) मौलाना ओबेदुल्लाह खान आजमी, संसद सदस्य (राज्य सभा), 26, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001	-- सदस्य	5. मौलाना शीदुल रहमान आजमी, नदवी, प्रधानाचार्य, दारुल उलूम नदवातुल उलूम, लखनऊ
(xi) कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	-- सदस्य	6. श्री सलमान खुर्शीद, अध्यक्ष, डा. जामिर हुसैन ट्रस्ट, 80, सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110025
(xii) कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया	-- सदस्य	
(xiii) महासचिव अखिल भारतीय क्रिश्चियन उच्च शिक्षा एशोसिएशन	-- सदस्य	7. मौलाना अंजर शाह, कुलपति, वक्फ दारुल उलूम विश्वविद्यालय, देवबन्द, सहारनपुर (उ. प्र.)
(xiv) सचिव अंजुमन तरक्की-उर्दू-ए-हिन्द	-- सदस्य	8. प्रो. हालीम खान, अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड एवं सचिव इस्लामिया करीमिया, बी-10, रवी शंकर नगर, इलाहाबाद बैंक के सामने भोपाल (म. प्र.)
(xv) सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	-- सदस्य	
(xvi) सचिव (माध्यमिक शिक्षा), पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता	-- सदस्य	9. डा. एम. इसहाक जमखानवाला, अध्यक्ष, अंजुमन-ए-इस्लाम, 92, दादा भाई नौरोजी रोड, मुम्बई-400050
(xvii) सचिव (प्रारंभिक शिक्षा विभाग), बिहार सरकार, पटना	-- सदस्य	10. मौलाना मोहम्मद वाली रेहमानी नवाब, कोठी, बेलन बाजार, खानखाह, मुंगेर, बिहार
(xviii) सचिव (उच्चतर शिक्षा), महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई	-- सदस्य	11. श्री पी. एम. मोहम्मद कोया पास्ट स्टेट, अध्यक्ष, मुस्लिम सर्विस सोसाइटी (एम एस एस), पो. बा. नं. 182, छेरोटी रोड, कालीकट-673001
(xix) सचिव (तकनीकी शिक्षा) कर्नाटक सरकार, बंगलौर	-- सदस्य	12. श्री देंजिल सल्दाना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, पो. बा. नं. 8313, दयोनार, मुम्बई-400088
(xx) अल्पसंख्यकों के मामलों से संबंधित निम्नलिखित शिक्षाविद्, कार्यकर्ता तथा प्रशासक :		13. प्रो. न्यूमान फर्नांडीज, प्रधानाचार्य, सेंट जेवियरस् कॉलेज ऑफ आर्ट्स,
सदस्य		
1. रेव. विनसेंट, जेसेसो आर्क, विशेष ऑफ दिल्ली, आर्क विशप हाउस, 1, अशोका प्लेस, नई दिल्ली		
2. श्री सैय्यद हामिद, कुलाधिपति, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110062		
3. सुश्री साब्रा हबीब, ए/2, विश्वविद्यालय फ्लैट्स, गोखरण नाथ रोड, लखनऊ (उ. प्र.)		
4. नवाब मोहम्मद अब्दुल अली, प्रिंस ऑफ आर्कोट,		

- साईस एण्ड कॉमर्स,  
मापुसा, गोवा-403507
14. श्री नाविद हामिद,  
महासचिव,  
मेयोमीन, 2143, दवाई टोला,  
कौसीमीजान स्ट्रीट, बल्लीमारान,  
दिल्ली-110006
15. श्री अबीद हुसैन,  
237, सेक्टर 15-ए,  
नोएडा-201301 (उ. प्र.)
16. डॉ. पॉल दिनाकरन,  
प्रो.--वी. सी.  
करून्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईस,  
(डोम्ड यूनिवर्सिटी), 16 ग्रीनवेज रोड,  
चेन्नई-600028
17. डॉ. मोहन वर्गीज,  
प्रधानाचार्य,  
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज,  
लुधियाना-141008
18. प्रो. फ्रांसिस परमार,  
प्रधानाचार्य,  
सेंट जेवियर्स कॉलेज,  
अहमदाबाद
19. प्रो. पृथ्वीपाल सिंह कपूर,  
पूर्व प्रो.--वी. सी.,  
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय,  
सी-10, राज गुरु नगर,  
लुधियाना-141012
20. मौलाना कल्ब-ई सादिक,  
जौहरी मोहल्ला,  
विक्टोरिया स्ट्रीट,  
लखनऊ-226003
21. श्रीमती हमीदा अल्लाना,  
उपाध्यक्ष,  
आगा खां फाउंडेशन,  
305, मेकर भवन नं. 3,  
21, न्यू मरीने लाइन्स,  
मुम्बई-400020
22. श्री जफर अली नकवी,  
पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,  
208/1, कीर्ति अपार्टमेंट्स,  
मयूर विहार, फेस-1,  
नई दिल्ली
23. सिस्टर एम. मारियन सी. जे.,  
सेंट मेरीज कान्वेंट,
- 32, थार्नहिल रोड,  
इलाहाबाद-211002 (उ. प्र.)
24. प्रो. जसवन्त सिंह पाहुल,  
पूर्व प्रधानाचार्य,  
गुरु गोविन्द सिंह कॉमर्स कॉलेज,  
सी-3/18, सफदरजंग एन्क्लेव,  
नई दिल्ली
25. डा. कविता बी. सूद,  
निदेशक,  
विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड  
टूरिज्म मैनेजमेंट, राजकोट,  
गुजरात
26. श्री फारूकी शेख,  
1002-ए, हाईलैंड पार्क बिल्डिंग,  
न्यू लिंक रोड,  
ओशीवारा (समीप लोखंडवाला काम्पलेक्स)  
अंधेरी (पश्चिम),  
मुम्बई-400053
27. श्री हिश्म सिद्दीकी,  
संपादक,  
जादीद मार्कज (साप्ताहिक),  
खुर्रम नगर, लखनऊ-226002
28. श्री के. के. अबूबाकर,  
अध्यक्ष,  
मुस्लिम शिक्षा सोसाइटी (पंजी.),  
एम. ई. एस. कल्चरल काम्पलेक्स,  
कोचीन-17
29. बेगम रेहाना ए. आर. उंद्रे,  
बोर्ली पंचायत,  
रायगड (महाराष्ट्र)
- (xxi) अध्यक्ष, -- सदस्य  
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,  
नई दिल्ली
- (xxii) अध्यक्ष, -- सदस्य  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,  
नई दिल्ली
- (xxiii) अध्यक्ष, -- सदस्य  
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,  
नई दिल्ली
- (xxiv) सचिव, -- सदस्य  
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
- (xxv) सचिव, -- सदस्य  
प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- (xxvi) सचिव, -- सदस्य  
महिला एवं बाल विकास विभाग

(xxvii) सचिव, -- सदस्य  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(xxviii) संयुक्त सचिव, -- सचिव  
माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग सदस्य

2. समिति के गठन से संबंधित अन्य सभी निबन्धन एवं शर्तें वही रहेंगी।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

केशव देसिराजू, संयुक्त सचिव

-----

(प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

विषय :-सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद् के नामांकन के संबंध में।

सं. 2-4/200-ई ई-3--भारत सरकार की दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 तथा 19 जनवरी, 2005 की अधिसूचना सं. एफ. 2-4/2000-डेस्क

(ई ई) के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की शासी परिषद् के सदस्यों को नामित किया गया है।

2. पैरा 3(xi) (च) में श्रीमती डिकी डोंका लेपचा के नामांकन को वापिस ले लिया गया है तथा उनके स्थान पर श्री पूर्ण हंग राय, प्राथमिक शिक्षक, सकर्यौंग सैकेण्डरी स्कूल, वैस्ट सिक्किम-737121 को नामित किया गया है।

3. अन्य शर्तें तथा अनुबंध वही रहेंगे।

#### आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन के सभी सदस्यों को अधिसूचना की एक प्रति परिचालित की जाए।

यह आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों की भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वृन्दा सरूप,

संयुक्त सचिव तथा सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन की महानिदेशक

**MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &  
COOPERATION)**

New Delhi, the 2006

No. 8-217/2004-PP.I(pt.).—In partial modification of Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Notification No. 8-97/91-PP.I dated 26.11.1993 and F. No. 8-217/2004-PP.I(pt.) dated 20.7.2004 and 8.12.2005, it is hereby notified for general information that the following institutions and officers of the State Government are authorized to inspect, fumigate or disinfect and to grant Phytosanitary Certificates in respect of plants and plants materials intended for export to other countries which require such certificates. Accordingly in the said notification, the following shall be added under the relevant heads :

2. State/UTs

Karnataka

- (iv) Deputy Director of Horticulture (Zilla Panchayat), Bijapur,  
Department of Horticulture,  
Government of Karnataka  
[Code No. 'S' (KAR 4)]
- (v) Deputy Director of Horticulture (Zilla Panchayat), Belgaum,  
Department of Horticulture,  
Government of Karnataka  
[Code No. 'S' (KAR 5)]
- (vi) Deputy Director of Horticulture (Zilla Panchayat), Koppal,  
Department of Horticulture,  
Government of Karnataka  
[Code No. 'S' (KAR 6)]
- (vii) Deputy Director of Horticulture (Zilla Panchayat), Haveri,  
Department of Horticulture,  
Government of Karnataka  
[Code No. 'S' (KAR 7)]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER  
EDUCATION)  
MINORITY CELL**

New Delhi-110001, the 7 December 2005

**RESOLUTION**

Subject : Constitution of a National Monitoring Committee for Minorities' Education

No. F. 9-7/2002-MC(L).—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated the 7th August,

2004, Government of India has decided to nominate Ms. Sabra Habib in place of Mr. R. Chenraj Jain and to add Shri K. K. Aboobacker and Begum Rehana Under as a member of the National Monitoring Committee for Minorities' Education. Henceforth the composition of the Committee will be as under :—

- (i) Union Minister of Human Resource Development. — Chairman
- (ii) Minister of State for Education Government of India. — Member
- (iii) Education Minister, Government of Uttar Pradesh, Lucknow. — Member
- (iv) Education Minister, Government of Kerala, Thiruvanthapuram. — Member
- (v) Education Minister, Government of Assam, Guwahati. — Member
- (vi) Education Minister, Government of Jammu & Kashmir, Srinagar. — Member
- (vii) Shri Iqbal Ahmed Saradgi, M.P. (Lok Sabha), 98, South Avenue, New Delhi-110001. — Member
- (viii) Shri Sartaj Singh Chhatwal, M.P. (Lok Sabha), B-601, MS Flats, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi. — Member
- (ix) Shri S. S. Ahluwalia, M.P. (Rajya Sabha), 10, Gurudwara Rakabganj Raod, New Delhi-110001. — Member
- (x) Maulana Obaidullah Khan Azmi, M.P. (Rajya Sabha), 26, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001. — Member
- (xi) Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University. — Member
- (xii) Vice-Chancellor of Jamia Millia Islamia. — Member
- (xiii) General Secretary, All India Association for Christian Higher Education. — Member
- (xiv) Secretary, Anjuman Tarraqqi-Urdu-e-Hind. — Member
- (xv) Secretary, National Minorities Commission. — Member

- |  |           |   |
|--|-----------|---|
| (xvi) Secretary (Secondary Education),<br>Government of West Bangal,<br>Kolkata.   | — Member  | B-10, Ravi Shankar Nagar,<br>Opp. Allahabad Bank,<br>Bhopal (M.P.).   |
| (xvii) Secretary (Elementary Education),<br>Government of Bihar,<br>Patna.   | — Member  | 9. Dr. M. Ishaq Jamkhanawala,<br>President,<br>Anjuman-e-Islam,<br>92, Dada Bhai Naoroji Road,<br>Mumbai-400050.  |
| (xviii) Secretary (Higher Education),<br>Government of Maharashtra,<br>Mumbai.   | — Member  | 10. Maulana Mohd. Wali Rehmani,<br>Nawab Kohti, Belan Bazar,<br>Kankah, Munger,<br>Bihar.   |
| (xix) Secretary (Technical Education),<br>Government of Karnataka,<br>Bangalore.   | — Member  | 11. Shri P. M. Moamed Koya,<br>Paste State President,<br>Muslim Service Society (MSS),<br>P.B. No. 182, Cherooty Road,<br>Calicut-673001.                 |
| (xx) Academics, activists and<br>administrators connected with<br>Minority issues, as listed below :                           | — Members | 12. Shri Denzil Saldana,<br>Tata Institute of Social Sciences,<br>Post Box No. 8313,<br>Deonar,<br>Mumbai-400088.   |
| 1. Rev. Vincent Concessao,<br>Archbishop of Delhi,<br>Archbishop House,<br>1, Ashok Place,<br>New Delhi.                       |           | 13. Prof. Newman Fernandes,<br>Principal,<br>St. Xavier's College of Arts,<br>Science & Commerce,<br>Mapusa, Goa-403507.                                  |
| 2. Shri Saiyid Hamid,<br>Chancellor,<br>Jamia Hamdard University,<br>New Delhi-110062.   |           | 14. Shri Navaid Hamid,<br>General Secretary,<br>MOEMIN,<br>2143, Dawai Tola,<br>Qasimijan Street, Ballimaran,<br>Delhi-110006.                            |
| 3. Ms. Sabra Habib,<br>A/2, University Flats,<br>Gokran Nath Road,<br>Lucknow (U.P.).  |           | 15. Shri Abid Hussain,<br>237, Sector 15-A,<br>Noida-201301 (U.P.).   |
| 4. Nawab Mohammed Abdul Ali,<br>Prince of Arcot,<br>"Amir Mahal",<br>Chennai-600014.   |           | 16. Dr. Paul Dinakaran,<br>Pro-Chancellor,<br>Karunya Institute of Technology & Science<br>(Deemed University),<br>16, Greenways Road,<br>Chennai-600028. |
| 5. Maulana Sheedul Rehman Azmi Nadwi,<br>Principal,<br>Darul Uloom Nadwatul Uloom,<br>Lucknow (U.P.).                          |           | 17. Dr. Mohan Verghese,<br>Principal,<br>Christian Medical College,<br>Ludhiana-141008.   |
| 6. Shri Salman Khursheed,<br>Chairman,<br>Dr. Zakir Hussain Trust,<br>80, Sukhdev Vihar,<br>Mathura Road,<br>New Delhi-110025. |           | 18. Prof. Francis Parmar,<br>Principal,<br>St. Xavier's College,<br>Ahmedabad.  |
| 7. Maulana Anzar Shah,<br>Vice-Chancellor,<br>Waqf Darul Uloom University<br>Deoband,<br>Saharanpur (U.P.).                    |           | 19. Prof Prithipal Singh Kapur,<br>Former Pro-VC,   |
| 8. Prof. Halim Khan,<br>Chairman,<br>Madrasa Board and Secretary,<br>Islamia Karimia,  |           |   |



- |   |   |          |
|---|---|----------|
| Guru Nanak Dev University,<br>C-10, Raj Guru Nagar,<br>Ludhiana-141012.   | (xxi) Chairman,<br>All India Council for<br>Technical Education,<br>New Delhi.  | — Member |
| 20. Maulana Kalb-I Sadiq,<br>Jauhari Mohalla,<br>Victoria Street,<br>Lucknow-226003.  | (xxii) Chairman,<br>University Grant Commission,<br>New Delhi.                  | — Member |
| 21. Smt. Hameeda Allana,<br>Vice-Chairman,<br>Aga Khan Foundation,<br>305, Maker Bhavan No. 3,<br>21, New Marine Lines,<br>Mumbai-400020.                   | (xxiii) Chairman,<br>National Council for Teachers'<br>Education,<br>New Delhi. | — Member |
| 22. Shri Zafar Ali Naqvi,<br>Former Minister, U.P. Government,<br>208/1, Kiriti Apartments,<br>Mayur Vihar Phase-1,<br>New Delhi.                           | (xxiv) Secretary,<br>Department of Secondary &<br>Higher Education.             | — Member |
| 23. Sister M. Marian C. J.,<br>St. Mary's Convent,<br>32, Thornhill Road,<br>Allahabad-211002 (U.P.).   | (xxv) Secretary,<br>Department of Elementary<br>Education and Literacy.         | — Member |
| 24. Prof. Jaswant Singh Phul,<br>Former Principal,<br>Guru Gobind Singh Commerce College,<br>C-3/18, Safdajang Enclave,<br>New Delhi.                       | (xxvi) Secretary,<br>Department of Women &<br>Child Development.                | — Member |
| 25. Dr. Kavita B. Sood,<br>Director,<br>Vivekanand Institute of Hotel &<br>Tourism Management,<br>Rajkot, Gujarat.  | (xxvii) Secretary,<br>Ministry of Social Justice &<br>Empowerment.              | — Member |
| 26. Shri Farouque Shaikh,<br>1002-A, Highland Park Building,<br>New Link Road,<br>Oshiwara (Near Lokhandwala Complex),<br>Andheri (West),<br>Mumbai-400053. | (xxviii) Joint Secretary,<br>Department of Secondary and<br>Higher Education.   | — Member |
| 27. Shri Hisam Siddiqui,<br>Editor,<br>Jadeed Markaz (Weekly),<br>Khurram Nagar,<br>Lucknow-226002.   |   |          |
| 28. Shri K. K. Aboobacker,<br>President,<br>Muslim Educational Society (Regd.),<br>M.E.S. Cultural Complex,<br>Cochin-17.                                   |   |          |
| 29. Begum Rehana A. R. Undre,<br>Borli Panchatan,<br>Raigad (Maharashtra).  |   |          |

2. All the other terms and conditions of constitution of the Committee will remain the same.

#### ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chairman and other members of the Committee.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

KESHAV DESIRAJU, Jt. Secy.

#### (DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 26th December 2005

Subject :—Governing Council of National Mission for Sarva Shiksha Abhiyan—nomination to—regarding.

No. 2-4/2000-EE.3.—Government of India vide Notification Nos. F. 2-4/2000-Desk (EE) dated 3rd December, 2004 and 19th January, 2005 has nominated the members of Governing Council of the National Mission for Sarva Shiksha Abhiyan under the Chairmanship of the Prime Minister.

2. The nomination of Smt. Diki Donka Lepcha, at para 3(xi) (f) has been withdrawn and in her place Shri Purna Hang

Rai, Primary Teacher, Sakyong Secondary School, West Sikkim-737121, Sikkim has been nominated.

3. Other terms & conditions will remain the same.

**ORDER**

Ordered that a copy of the Notification be communicated to all members of the National Mission of Sarva Shiksha Abhiyan.

Ordered that a copy of the Notification be sent to all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

VARINDA SARUP, Jt. Secy., and  
Director General of National Mission for SSA